

प्रेषक,

अब्दुल समद,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासना

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश,

प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 22अक्टूबर, 2021

विषय- प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों से "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण गठित विशेषज्ञ समिति से कराया गया। अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्र संख्या-304/रा0उ0शि0प0/02/2021, दिनांक 22.07.2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी विशेषज्ञ समिति की संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरांत संलग्न विवरण के अनुसार प्रदेश के राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु "रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट" योजनांतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन रू0 25,67,800/- (रूपये पच्चीस लाख सडसठ हजार आठ सौ मात्र) का अनुदान/ वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपकरण, शोध सहायक/केमिकल, ग्लासवेयर, उपभोज्य वस्तुएं आदि/यात्रा व्यय और फील्ड कार्य एवं डाटा कलेक्शन आदि आकस्मिक व्यय पर किया जायेगा।
2. शासनादेश संख्या-1604/सत्तर-4-2020-1268/2018 दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा तथा परियोजना के अंतर्गत कराये गये शोध कार्यों की निर्धारित समय-सीमा पर समीक्षा की जाएगी एवं शासन को नियमित रूप से प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध करायी जाएगी।
3. प्रश्नगत योजना से संबंधित कार्यों हेतु किसी भी दशा में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा कोई डिप्लोमा/प्रशिक्षण कोर्स संचालित नहीं किये जाएंगे।
4. योजनांतर्गत स्वीकृत धनराशि का मदवार उपयोगिता प्रमाण पत्र व प्रगति आख्या शासन को संकलित रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. योजनांतर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश प्रभावी रहेंगे। निदेशालय स्तर पर योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा। योजनांतर्गत जो भी बुक्स/प्रकाशन किये जाएँगे उसमें योजना का नाम एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन का उल्लेख अवश्य किया जायेगा।
 6. धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत सामग्री क्रय हेतु सुसंगत वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा। सामग्री के अनुरक्षण आदि पर होने वाला व्यय महाविद्यालय द्वारा किया जायेगा। प्रस्ताव पर यदि और धनराशि की आवश्यकता होती है तो महाविद्यालय द्वारा उसका वहन अपने स्रोतों से किया जायेगा।
 7. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं स्टोर परचेज रूल्स आदि का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 8. उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन होगी कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को यथा समय उपलब्ध कराया जायेगा।
 9. इस अनुदान को उपयोग अनुमोदित मदों पर ही किया जायेगा। अस्थायी रूप से भी इसका कोई भाग अन्य अनानुमोदित मदों, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता व मानदेय कार्यों के लिए तथा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन पर व्यय नहीं किया जायेगा।
 10. इस अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-05 भाग-01 के नियम 16ए में निहित अनुदान के नियम लागू होंगे।
 11. उक्त धनराशि का व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
 12. प्रश्नगत शोध हेतु जो भी उपकरण क्रय किये जाएँगे, शोध/परियोजना पूर्ण होने के उपरांत संबंधित विभाग को हस्तगत कर दिये जाएँगे, जिसका उपयोग विभाग द्वारा आगामी शोध परियोजनाओं के लिए किया जायेगा।
- 2- इस निमित्त होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-73 के अधीन लेखा शीर्षक "2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-800 अन्य व्यय-13-प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में रिसर्च एण्ड डेवलपमेन्ट-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2020, दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
अब्दुल समद,
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-93/2021/1401(1)/सत्तर-4-2021-4(28)/2021 तद्दिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. संबंधित कोषाधिकारी।
5. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. प्राचार्य संबंधित महाविद्यालय द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
7. संबंधित शिक्षक/शोधकर्ता द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-11
10. अनुभाग अधिकारी (लेखा), उच्च शिक्षा विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि को तत्काल आनलाइन Grid (Budget) Allotment कर उसकी हार्ड कापी उच्च शिक्षा अनुभाग-4 को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-93/2021/1401/सत्तर-4-2021-4(28)/2021 दिनांक- 22/10/2021 का संलग्नक:-

क्र०सं	राजकीय/ अनुदानित महाविद्यालय	प्रमुख शोधकर्ता/विभाग	विषय	मदवार संस्तुत धनराशि	
				मद	धनराशि
1	वर्धमान पी0जी0 कालेज, बिजनौर	Dr. Sunil Kumar Joshi (Department of Education-B.Ed)	Effect of Blended learning on Academic Achievement and Attitude of Student Teachers at B.Ed. Level	उपकरण	20000
				मैन पावर	30000
				आकस्मिकता	5000
				उपभोज्य वस्तुएं	5000
				यात्रा/फील्ड वर्क	2500
				ओवर हेड चार्ज	7000
				योग	69500
2	वर्धमान पी0जी0 कालेज, बिजनौर	Dr. Anju Banshal (Department of Hindi)	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय संस्कृति में वर्णित विदुर-नीति	कर्मचारी सेवाओं के लिए	50000
				आकस्मिकता	10000
				उपभोज्य वस्तुएं	20000
				यात्रा फील्ड वर्क	25000
				ओवर हेड चार्ज	14000
योग	119000				
3	वर्धमान पी0जी0 कालेज, बिजनौर	Prof. Chandra Mohan (Department of Commerce)	आगरा मण्डल में स्थित राजकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन एवं आर्थिक उपयोगिताका विवेचनात्मक मूल्यांकन	कर्मचारी सेवाओं के लिए	50000
				आकस्मिकता	10000
				उपभोज्य वस्तुएं	20000
				यात्रा फील्ड वर्क	25000
				ओवर हेड चार्ज	14000
योग	119000				
4	बरेली कालेज, बरेली	Dr. Manu Pratap (Department of Hindi)	सामाजिक विसंगति बनाम दलित साहित्य	उपकरण	23000
				कर्मचारी सेवाओं के लिए	10000
				आकस्मिकता	2000
				उपभोज्य सामग्री	10000
				यात्रा/फील्ड वर्क	5000
योग	50000				
5	राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गाजीपुर	Dr. Diwakar Mishra (Department of Zoology)	Protective Effects of Some Natural Products on Toxicant induced Physiological and Cyto-architectural Alterations in Vital organs of Rat.	उपकरण	95000
				आकस्मिकता	20000
				उपभोज्य सामग्री	40000
				यात्रा/फील्ड वर्क	5000
				ओवर हेड चार्ज	20000
योग	180000				
6	मेरठ कालेज, मेरठ	Dr. Sachin Kumar Sharma (Department of Physics)	Fabrication and Characterization of thin films for photovoltaic applications	उपकरण	150000
				कर्मचारी सेवाओं के लिए	10000
				आकस्मिकता	5000
				उपभोज्य सामग्री	10000
				यात्रा/फील्ड वर्क	5000
ओवर हेड चार्ज	10000				
योग	190000				
7	मेरठ कालेज, मेरठ	Dr. Seema (Department of Chemistry)	A Combined experimental and theoretical spectral study of some substituted anilines	उपकरण	60000
				कर्मचारी सेवाओं के लिए	87000
				आकस्मिकता	10000
				उपभोज्य सामग्री	12000
				यात्रा/फील्ड वर्क	2000
ओवर हेड चार्ज	16800				

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

				योग	187800
8	सन्त गणिनाथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मऊ	Dr. Awanish Kumar Singh (Department of Botany)	Allelopathic effects of Parthenium hysterophorus on the Growth and Productivity of Solanum tuberosum and Solanum lycopersicum vegetables	उपकरण	100000
				आकस्मिकता	17500
				उपभोज्य सामग्री	75000
				यात्रा/फील्ड वर्क	2500
				ओवर हेड चार्ज	10000
				योग	205000
9	डी(0ए0वी0 कालेज, मुजफ्फरनगर	Dr. Yogesh Kumar (Department of Zoology)	Morphological, Anatomical and Molecular characterization of Nematodes in fresh water fishes	उपकरण	60000
				पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	20000
				आकस्मिकता	15000
				उपभोज्य सामग्री	50000
				यात्रा/फील्ड वर्क	12500
				ओवर हेड चार्ज	22500
योग	180000				
10	प्रयाग महिला विद्यापीठ डिग्री कालेज, प्रयागराज	Dr. Sarika Dubey (Department of Political Science)	भारतीय संस्कृति एवं विरासत के प्रतीक: महापर्व कुम्भ का भारत के सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण में योगदान	कर्मचारी सेवाओं के लिए	50000
				आकस्मिकता	5000
				उपभोज्य सामग्री	10000
				यात्रा/फील्ड वर्क	10000
				ओवर हेड चार्ज	10000
				योग	85000
11	संत विनोबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, देवरिया	Dr. Brijesh Kumar Pandey (Department of Education)	भारतीय संस्कृति में स्वस्थ जीवन शैली एवं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अध्ययन	उपकरण	100000
				कर्मचारी सेवाओं के लिए	60000
				आकस्मिकता	12500
				उपभोज्य सामग्री	25000
				यात्रा/फील्ड वर्क	25000
				ओवर हेड चार्ज	20000
योग	242500				
12	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ	Dr. Poonam Verma (Department of Economics)	Poverty Alleviation of women through Self Help Groups (SHGs) and Micro finance	उपकरण	145000
				आकस्मिकता	15000
				उपभोज्य सामग्री	35000
				यात्रा/फील्ड वर्क	27500
				ओवर हेड चार्ज	20000
				योग	242500
13	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, अलीगंज, लखनऊ	Dr. Raghvendra Pratap Narayan (Department of Botany)	Effect of Different Bioagents and Nutrients on Enhancement of Bioactive Constituents of Tinospora Cordifolia (Giloy)	उपकरण	85000
				मैन पॉवर	96000
				आकस्मिकता	7500
				कमिकल्स एवं ग्लासवेयर	70000
				यात्रा/फील्ड वर्क	10000
				योग	268500
14	वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, झांसी	Dr. Shyam Sunder Kushwaha (Department of Education)	A study of the Readiness for Implementation of E-Learning in Government Degree Colleges of Bundelkhand Region of Uttar Pradesh and Assessment of E-Learning Needs among its Faculty Members and Students	उपकरण	20000
				मैन पॉवर	50000
				आकस्मिकता	12500
				उपभोज्य सामग्री	10000
				फील्ड वर्क	25000
				ओवर हेड चार्ज	15500
योग	133000				

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15	ए0एन0डी0 टीचर्ज ट्रेनिंग कालेज, सीतापुर	Dr. Sunil Kumar (Department of Education-B.Ed)	उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की थारू जनजाति की शैक्षिक स्थिति, सामाजिक-आर्थिक स्तर, समायोजन एवं समस्याओं का अध्ययन।	उपकरण	215000
				कर्मचारी सेवाओं के लिए	10000
				आकस्मिकता	13500
				उपभोज्य सामग्री	25000
				यात्रा/फील्ड वर्क	12500
				ओवर हेड चार्ज	20000
				योग	296000
महायोग				2567800	

(रूपये पच्चीस लाख सडसठ हजार आठ सौ मात्र)

सर्वेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।